

GOVERNMENT OF INDIA

 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9]

दिल्ली, जून 22—जून 28, 2018, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 1—आषाढ़ 7, 1940

No. 9]

DELHI, JUNE 22—JUNE 28, 2018, THURSDAY/ ASHADHA 1—ASHADHA 7, 1940

भाग—II-II

PART-II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

रजनी आनंद

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

कॉस्मिक स्ट्रक्चर लिमिटेड

...प्रतिवादी

कंपनी याचिका संख्या 152/2016**याचिका का विज्ञापन**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 433 (ई एवं एफ़) साथ में धारा 434 में एक याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता रजनी आनंद, 79 आर पी एस कॉलोनी, शेख सारे फेज-I, नई दिल्ली 110017 द्वारा दिनांक 11.01.2017 को प्रस्तुत की गयी थी तथा कथित याचिका को दिनांक 13-08-2018 को 10:30 प्रातः न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

कथित याचिका पर किसी आदेश को पारित करने के समर्थन या विरोध के इच्छुक किसी ऋणदाता अंशदानी या किसी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी, के पास स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना, अपने नाम एवं पता सहित, इस प्रकार भेजे कि अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकतम याचिका के लिए सुनवाई हेतु नियत तिथि अर्थात् 13-08-2018 से 05 दिन पहले पहुंच जाये तथा इस उद्देश्य हेतु सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किसी ऋणदाता या अंशदानी को इसके लिए निर्धारित शुल्क भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

याचिका के विरुद्ध में प्रयोग किये जाने के लिए शपथ पत्र को न्यायालय में दाखिल करना होगा, तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को अथवा उसके अधिवक्ता को, सुनवाई के लिए नियत तिथि से कम से कम 05 दिन पहले देना होगा।

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

(डी. के. सिंह)

दिनांक: 18.01.2018

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध

8वां फ्लोर, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

[विज्ञापन ए-II/II/09/18]

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

RAJNI ANAND

... PETITIONER

VERSUS

COSMIC STRUCTURES LTD.

... RESPONDENT

C. P. No. 152/2016

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition Under Section 433(e) & (f) read with section 434 of the Companies for the winding up of the above Respondent Company by Hon'ble High Court of Delhi on 11.01.2017 was presented by Rajni Anand, 79, R.P.S. Colony, Sheikh Sarai, Phase-1, New Delhi-110017 and that the said petition is directed to be heard before the Court on 13.08.2018 at 10.30 A.M.

Any Creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the under mentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the under mentioned not later than 5 days before the date fixed for hearing of the petition i.e. 13.08.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the undersigned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd./-

(D. K. SINGH)

Place: New Delhi

Dated : 18.01.2018

OFFICIAL LIQUIDATOR,
ATTACHED TO THE HON'BLE
HIGH COURT OF DELHI
8TH FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003

[ADVT. A-II/II/09/18]